

सही उत्तरवाले अक्षर को घेरिए।

१. स्कूल दिनों में, रोहन मन लगाकर पढ़ाई करता है।

- | | |
|--------|-------|
| क. को | ख. से |
| ग. में | घ. के |

२. तूफान के समय समुद्र में जाना मना है।

- | | |
|---------|----------|
| क. गहरा | ख. गहरी |
| ग. गहरे | घ. गहराई |

३. संतुलित भोजन लेने से शरीर रहता है।

- | | |
|------------|--------------|
| क. स्वस्थ | ख. स्वास्थ्य |
| ग. अस्वस्थ | घ. बीमार |

४. अगले वर्ष मेरी दीदी विदेश की यात्रा।

- | | |
|----------|-----------|
| क. करेगी | ख. करेंगे |
| ग. करोगी | घ. करेगा |

५. यदि भारी बारिश हुई पाठशाला बंद रहेगी।

- | | |
|----------|-----------|
| क. लेकिन | ख. तो |
| ग. अगर | घ. यद्यपि |

६. प्रतिदिन पिताजी व्यायाम।

- | | |
|-------------|------------|
| क. किया | ख. करेगी |
| ग. करते हैं | घ. करता है |

७. खेल में प्रथम आया ?

- | | | |
|---------|--------|-----|
| क. क्या | ख. कब | |
| ग. किन | घ. कौन | [1] |

८. भाई घूमना पसंद करता है।

- | | | |
|---------|---------|-----|
| क. मैं | ख. मेरा | |
| ग. मुझे | घ. मेरे | [1] |

९. रोहन हमेशा माता-पिता की बात सुनता है, वह सबकी है।

- | | | |
|--------------------|-----------------------|-----|
| क. नाक-भौ सिकोड़ता | ख. आँखों का तारा | |
| ग. खून पसीना बहाता | घ. आँख में धूल झोंकता | [1] |

१०. कोष्ठक में दिए गए शब्द का पुल्लिङ्ग रूप लिखिए :

आज दादी ने मुझे (रानी) की कहानी सुनाई। [1]

११. वाक्य पूरा कीजिए :

..... छात्र हमेशा सफल होता है और आलसी छात्र असफल होता है। [1]

१२. वाक्य का निषेधात्मक रूप लिखिए :

मैं बाज़ार जाऊँगा।
..... [1]

१३. दिए गए शब्द का बहुवचन रूप लिखिए :

रविवार को बाज़ार में अनेक तरह की बेची जाती हैं। (सब्ज़ी)

[1]

१४. सर्वनाम का उचित रूप लिखिए :

अध्यापक ने छात्र से पूछा, “..... पुस्तक कहाँ है ?” (तुम)

[1]

१५. वाक्य में उचित विराम चिह्न का प्रयोग कीजिए : (। / ? / , / !)

तुम्हारा नाम क्या है

[1]

Question 2 (5 Marks)

सही उत्तरवाले अक्षर को घेरिए।

१. सब्जियाँ काटने के लिए चाहिए।

- | | |
|---------|----------|
| क. छुरी | ग. गाड़ी |
| ख. कलम | घ. चाभी |

२. कृपया भोजन से पहले अपने मैले हाथ लीजिए।

- | | |
|--------|--------|
| क. देख | ग. खेल |
| ख. धो | घ. पढ़ |

३. फ़िल्म बहुत ही थी। हमें खूब हँसी आई।

- | | |
|------------|----------|
| क. भयानक | ग. लम्बी |
| ख. मनोरंजक | घ. उदास |

४. वह बहुत से चल रहा था इसीलिए गिर गया।

- | | |
|---------|----------|
| क. आराम | ग. तेज़ी |
| ख. आलस | घ. धीरे |

५. जूते बहुत ही महंगे थे। मैं उन्हें न सका।

- | | |
|---------|---------|
| क. खरीद | ग. बना |
| ख. चला | घ. बुला |

Question 3 (10 Marks)

(अ) ध्यान से पढ़िए और सही उत्तर लिखिए :



श्रीमान और श्रीमती मोहन
अपने प्रिय पुत्र
राहुल
और
यजना



(श्रीमान और श्रीमती दयाल की पुत्री)

के विवाह के शुभ अवसर पर आप सभी को आमंत्रित करते हैं ।

विवाह शनिवार 14 फरवरी 2019 को दो बजे

नेहरू हॉल, मोका में होगा ।

विवाह के बाद, उनके घर पर डोडो गली, रोज़ हिल में

शाम के पाँच बजे, भोजन से आपका सत्कार किया जाएगा ।

आशा है कि आप दूल्हा और दुल्हन को आशीर्वाद देने अवश्य आएँगे ।

सूचना पत्र

उदाहरण : दूल्हे का नाम:

राहुल

- | | |
|----------------------------|-----|
| १. दुल्हन का नाम: | [1] |
| २. विवाह की तिथि: | [1] |
| ३. विवाह का समय: | [1] |
| ४. विवाह का स्थान: | [1] |
| ५. भोजन करने की जगह: | [1] |

(आ) नीचे दिए गए ई-मेल को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर लिखिए :

प्रिय राज,

आशा करता हूँ कि तुम ठीक हो। मैं सुयाक में रमेश चाचा के यहाँ छुट्टियाँ बिताने आया हूँ। मैं उनके साथ अच्छा समय बिता रहा हूँ। आज हम तैरने गए थे और कल हम सिनेमा-घर जाएँगे। मेरा 'सिम्बा' फ़िल्म देखने का बहुत मन है।

शुक्रवार को मेरे चाचा का जन्मदिन है। मैं उनके लिए एक अच्छा उपहार खरीदना चाहता हूँ। मैं उन्हें एक कमीज़ देना चाहता हूँ।

राज, अभी के लिए इतना ही। घर पहुँचने पर मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा। जल्दी ही मिलते हैं।

तुम्हारा शिव

१. किसने ई-मेल भेजा ?

उदाहरण : **शिव ने**

२. शिव के चाचा कहाँ रहते हैं ?

.....

३. शिव अपनी छुट्टियाँ कैसे बिता रहा है ?

.....

४. शिव ने अपने चाचा के साथ क्या किया ?

.....

५. शिव कौन-सी फ़िल्म देखना चाहता है ?

.....

६. शिव रमेश चाचा के लिए क्या खरीदना चाहता है ?

.....

Question 4 (5 Marks)

कोष्ठक में दिए गए शब्दों से नए शब्द बनाकर खाली जगहों को पूरा कीजिए :

पूनम के माता-पिता (घर) कामकाज करने में एक दूसरे का हाथ बटाते हैं।
पिता जी भी खुशी-खुशी रसोईघर की (साफ़) करते हैं। पूनम फूलों से घर
की (सजाना) करती है। इन फूलों से घर (सुगंध) हो
जाता है। एक दूसरे की सहायता करते हुए, परिवार में (एक) बनी रहती है।

Question 5 (5 Marks)

रेखांकित शब्दों का शुद्ध रूप लिखिए। एक उदाहरण दिया गया है।

जीवन का (में) सफल होने के लिए अनुशासन का पालन करना चाहिए। एक छात्र को
अपना (.....) कक्षा में समय पर पहुँचना चाहिए। वह (.....) अध्यापक
की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। उसे अपना ग्रहकार्य (.....) भी पूरा करना
चाहिए। जो मेहनत नहीं करेगा उसे अनेक समस्या (.....) का सामना करना
पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है की (.....) मेहनत का फल मीठा होता है।

Question 6 (10 Marks)

(अ) दिए गए शब्दों से खाली जगहों को भरिए।

पहाड़ों	बनाया	दृश्य	राजधानी	बड़ा	जगहें	खेलना
---------	-------	-------	---------	------	-------	-------

पोर्ट लुई मॉरीशस की राजधानी है। 1735 में फ्रेंच द्वारा इसे गया था। आज पोर्ट लुई मॉरीशस का सबसे शहर है। पोर्ट लुई में बहुत अच्छी हैं। एक ओर यह शहर से तो दूसरी ओर समुद्र से घिरा है। पोर्ट लुई में खड़ा होकर चारों ओर सुंदर देखे जा सकते हैं।

(5 Marks)

(आ) उचित शब्द से खाली जगहों को भरिए।

पोर्ट लुई में अनेक पुरानी इमारतें हैं। बहुत पहले फ्रेंच और अंग्रेजों ने ये इमारतें बनाई थीं। ला सितादेल एक ऐसी इमारत है अंग्रेजों ने 1835 में बनाई थी। पोर्ट लुई का डाकघर, एक और जगह है। पोर्ट लुई में एक बाज़ार भी है जहाँ लोग कई के भोजन खरीदते हैं। इसीलिए पोर्ट लुई पर्यटकों के लिए एक स्थान है।

Question 7 (10 Marks)

हाल ही में कवि स्कूल द्वारा आयोजित एक यात्रा पर गया था। वह अपनी सहेली रीना को इस यात्रा के बारे में बताने के लिए एक पत्र लिखता है।

निम्नलिखित बिन्दुओं के आधार पर 50 – 60 शब्दों का एक पत्र लिखिए:

- वह कहाँ-कहाँ गया ?
- उसने वहाँ क्या किया ?
- मित्रों और अध्यापकों के साथ कैसे समय बिताया ?
- कब घर लौटा ?

प्यारी रीना,

तुम्हारा मित्र
कवि

Question 8 (15 Marks)

पाठ को ध्यान से पढ़िए ।

खिलौनों की दुकान में सोनिया सबसे प्यारी गुड़िया थी। एक दिन सीमा नाम की लड़की ने उसे खरीद लिया। गुड़िया बहुत खुश हो गई क्योंकि वह अपने नए घर में जा रही थी। उसने सोचा कि अब उसे सीमा जैसी एक अच्छी सहेली मिलेगी जो उसे खूब प्यार करेगी।

दुर्भाग्य से उसने जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ। नए घर में आते ही सीमा ने उसे एक कमरे के कोने में फेंक दिया जहाँ पहले से ही कई गुड़ियाँ थीं। कुछ गुड़ियों का केवल एक हाथ और एक पैर था। किसी एक गुड़िया का सिर गायब था तो दूसरी का झगला फटा था। उन्हें देखकर अब सोनिया को डर लगने लगा। उसे पता चल गया कि सीमा गुड़ियों से प्यार नहीं करती थी। वह उन्हें डाँटती थी और नाराज़ होने पर उन्हें मारती भी थी।

एक दिन सीमा ने सोनिया के झगले पर खाना गिरा दिया। मैला होने के कारण उसने उसे घर के बाहर फेंक दिया। बेचारी सोनिया ! उस रात भारी वर्षा हुई और वह कीचड़ से भर गई। उसे लगा कि वह अब नहीं बचेगी। सुबह होते ही उसे एक पतली आवाज़ सुनाई दी।

“ओह ! गुड़िया ! गुड़िया ! मेरे पास कोई गुड़िया नहीं है।”

उस लड़की का नाम तारा था जो बहुत गरीब थी। वह एक छोटे से घर में रहती थी। उसने उसे उठाया, अच्छी तरह से धोया और उसके बाल भी बनाए। वह हमेशा उसे लोरियाँ भी सुनाती थी और गले से लगाकर रखती थी। सीमा की तरह तारा के पास बड़ा घर तो नहीं था लेकिन

उसका दिल बहुत बड़ा था। अंत में, सोनिया को बहुत प्यार करने वाली एक अच्छी सहेली मिल गयी थी।

दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए :

१. सीमा ने पहली बार के लिए सोनिया को कहाँ देखा ?

.....
..... [1]

२. जब सीमा उसे घर ले गई तो सोनिया ने क्या सोचा ?

.....
..... [1]

३. किन दो बातों से पता चलता है कि सीमा गुड़ियों की देखभाल ठीक से नहीं करती थी ?

.....
..... [2]

४. सीमा ने सोनिया को बाहर क्यों फेंक दिया ?

.....
..... [1]

५. सोनिया को देखकर तारा क्यों खुश हो गई ?

.....

.....

६. सीमा और तारा के स्वभाव में क्या अंतर है ?

.....

.....

७. इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है ?

.....

.....

८. पाठ के अनुसार, इन वाक्यों को क्रम में डालिए:

(क) तारा सोनिया को अच्छी तरह से धोती है।

☐

(ख) सीमा सोनिया को घर ले जाती है।

☐

(ग) सीमा सोनिया के झगले पर खाना गिरा देती है।

☐

९. पाठ में दिए गए पाँच शब्दों में से किन्हीं तीन के अर्थ दीजिए।

घर -

डर -

नाराज़ -

सुबह -

गरीब -

Question 9 (10 Marks)

(अ) दिए गए शब्दों का अनुवाद हिंदी में कीजिए :

क. Night -

ख. Umbrella -

ग. Eat -

घ. Hungry -

ङ. Large -

[5]

(आ) अंग्रेज़ी से हिंदी में अनुवाद कीजिए :

Yesterday, a man came to our house to sell flowers. Ashi bought some

.....

.....

lovely flowers. She gave them to her mother. It was her mother's birthday.

.....

.....

Question 10 (15 Marks)

किसी एक विषय पर लगभग 150 – 175 शब्दों का एक निबंध लिखिए :

स्कूल में आपका पहला दिन

अथवा

एक कहानी लिखिए जो इस वाक्य से समाप्त होती है -

“मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा/ करूँगी।”